

सिंह कालूखेड़ा, श्री महेन्द्र

इंडियन नेशनल कांग्रेस

निर्वाचन क्षेत्र- मुंगावली (34)



पिता का नाम-	श्री मोहन सिंह
जन्म तिथि-	05 मार्च, 1945
जन्म स्थान-	पोस्ट लीमड़ी, जिला-दाहोद (गुजरात)
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पत्नी-	श्रीमती आदर्श सिंह
संतान-	2 पुत्रियाँ
शैक्षणिक योग्यता-	एम.ए., एल-एल.बी.
व्यवसाय-	कृषि
अभिरुचि-	कृषि, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, खेल
स्थायी पता-	ग्राम व पोस्ट कालूखेड़ा, तह. पिपलोदा, जिला-रतलाम (म.प्र.) दूरभाष-(07414) 276226, 276227 मोबाइल-9425012226 फ़ैक्स-(07414) 276180 ई- मेल-mahendrasingh.k@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	बी-5, दौलतपुर हाऊस, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल (म.प्र.)दूरभाष-(0755)2440728

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

सन् 1961-64 में भूपाल नोबल्स छात्र संगठन, उदयपुर के अध्यक्ष. सन् 1960 में विक्रम विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव तथा अध्यक्ष. सन् 1972 में पांचवीं एवं सन् 1980 में सातवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. सन् 1980-81 में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के सभापति. सन् 1981-84 में विधि आयोग के सदस्य तथा सन् 1977-78 में म.प्र. विधान सभा सदस्य क्लब के सचिव. सन् 1982-84 में म.प्र. कला परिषद् के सदस्य. सन् 1983 में मुंगावली जिला गुना महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष. सन् 1980-84 में विधान सभा की सरकारी उपक्रम समिति के सभापति. सन् 1983-84 में प्रबंध संचालकों के अधिकार वितरण कमेटी म.प्र. के अध्यक्ष. सन् 1981-84 में म.प्र. गृह निर्माण मंडल तथा अ.भा. गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष. सन् 1982-83 में प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोक लेखा समिति के सदस्य. सन् 1984 में लोक सभा सदस्य. सन् 1985-86 में आफिसेज ऑफ प्राफिट पर संयुक्त समिति के सदस्य. सन् 1986 में म.प्र. क्रीड़ा परिषद् के सदस्य. 1987-95 में म.प्र. चेप्टर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के अध्यक्ष. म.प्र. दुग्ध सहकारिता संघ, राष्ट्रीय डेरी सहकारिता, संचालित समिति तथा म.प्र. राज्य कृषि एवं विपणन एम.पी.एगो, एम.पी.सीड कार्पोरेशन, कोसाम्ब के अध्यक्ष. म.प्र. कला परिषद, म.प्र. स्पोर्ट्स कौंसिल के

सदस्य एवं म.प्र. राइफल एसोसिएशन तथा म.प्र. बास्केट बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष. म.प्र. पुरातत्व सलाहकार समिति, प्रधानमंत्री की विभागीय सलाहकार समिति तथा प्रधानमंत्री द्वारा गठित पंचायत राज से संबंधित विकेन्द्रीकरण समिति के सदस्य. इन्टेक के समन्वयक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सिंधिया स्कूल ग्वालियर के सदस्य. युवक सदन, भारत सरकार की म.प्र. शाखा के संरक्षक तथा कामिनी कला अकादमी, इंदौर के अध्यक्ष. सिंधिया ग्रामीण वेलफेयर ट्रस्ट और सिंधिया स्पोर्ट्स ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी. म.प्र. तीर कमान संघ तथा म.प्र. बास्केट बाल संघ के अध्यक्ष तथा म.प्र. कुश्ती संघ के संरक्षक एवं म.प्र. खेल परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य. जिला क्रिकेट संघ रतलाम, उज्जैन संभाग क्रिकेट संघ तथा मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष. अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, अर्जेंटीना, पोलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, हॉलैण्ड, ब्राजील, स्विटजरलैंड, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, चीन, इजिप्ट एवं अनेक देशों की यात्रा. सन् 1993 में दशम् विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं मंत्री, शालेय शिक्षा विभाग तदन्तर योजना तथा कृषि एवं डेयरी विभाग रहे. 1993-96 में म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, 1998-2003 में म.प्र. बीज निगम और म.प्र. एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे. सन् 1998 में ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं मंत्री कृषि, आयाकट एवं सहकारिता विभाग रहे. सन् 2008 में तेरहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. सरकारी उपक्रम समिति एवं लोक लेखा समिति के सभापति.

सन् 2013 में छठी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.

सम्प्रति: सभापति, लोक लेखा समिति.